

**DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS
FROM CEREALS, PULSES AND OILSEEDS
(DPVCPO)**

Term-End Examination 00158

June, 2018

BPVI-032 : FOOD MICROBIOLOGY

<i>Time : 2 hours</i>	<i>Maximum Marks : 50</i>
-----------------------	---------------------------

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

1. (a) State true or false : 5x1=5
 - (i) Spores are thermotolerant.
 - (ii) All bacteria present in food are aerobic.
 - (iii) Louis Pasteur was the scientist to give Pasteurization process.
 - (iv) The pH value of food refers to negative log of H⁺ ion concentration.
 - (v) Yeasts prefer sugar rich food items and ferment it.

- (b) Describe any two gaseous chemical preservatives useful for food industry. 5

2. Write short notes on any four of the following : 4x2.5=10
 - (a) Bacteria
 - (b) Anaerobic condition for food preservation
 - (c) Oxidation-Reduction Potential
 - (d) Fungi
 - (e) Growth phases in bacterial life cycle

3. (a) Define food preservative. Name six important compounds commonly used as food preservatives. 5
- (b) Explain the desirable properties of food preservatives. 5
4. (a) Differentiate between : 2x2.5=5
(i) Aerobic and anaerobic microorganisms.
(ii) Pasteurization and sterilization.
- (b) Write the role of biological structure and inhibitory substances in controlling microbial growth. 5
5. (a) What are food additives ? Highlight their role in food industry. 6
- (b) Define Pasteurization. Give time temperature combination for LT LT and HT ST pasteurization. 4
6. (a) What is botulism ? 2
(b) What are the sources of contaminants in drinking water ? 3
(c) Define and classify food borne diseases with suitable examples. 5
7. (a) Explain the spoilage of processed pulses and grain products. 5
(b) Discuss the factors affecting growth of microorganism that cause food spoilage. 5
8. Define following : (Any five) 5x2=10
(a) Water activity
(b) Acidulants
(c) Food infection
(d) Thermal death time
(e) Mycotoxin
(f) UHT processing

अनाजों, दालों एवं तिलहनों से मूल्य संवर्धित उत्पादों के
उत्पादन में डिप्लोमा कार्यक्रम (डी.पी.वी.सी.पी.ओ.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2018

बी.पी.वी.आई.-032 : खाद्य सूक्ष्मजैविकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (a) बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत : $5 \times 1 = 5$
- (i) स्पोर तापसह हैं।
 - (ii) खाद्यपदार्थ में विद्यमान सभी जीवाणु वायुजीवी हैं।
 - (iii) लुईस पास्तेर वह जिनके द्वारा वैज्ञानिक पास्तेरीकरण प्रक्रिया को प्रतिपादित किया गया।
 - (iv) खाद्यपदार्थ के पीएच मान आशय H^+ आयन सांद्रण के ऋणात्मक लॉग से है।
 - (v) यीस्ट शर्करायुक्त खाद्य मद को आधिक पसन्द करता है और इनका किण्वन करता है।
- (b) खाद्य उद्योग के लिए उपयोगी किन्हीं दो गैसीय रासायनिक परिरक्षकों का वर्णन कीजिए। 5

2. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिये। $4 \times 2.5 = 10$
- जीवाणु
 - खाद्य परिरक्षण हेतु अवायुवीय दशा
 - आँकसीकरण-अपचयन विभव
 - फॉन्ड (कवक)
 - जीवाणुवीय जीवन चक्र में वृद्धि-प्रावस्थाएँ
3. (a) खाद्य परिरक्षक को परिभाषित कीजिए। खाद्य परिरक्षकों के रूप में सामान्य तौर पर प्रयुक्त छह महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम लिखिए। 5
- (b) खाद्य परिरक्षकों के वांछनीय गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। 5
4. (a) अंतर स्पष्ट कीजिए : $2 \times 2.5 = 5$
- वायुवीय एवं अवायुवीय सूक्ष्मजीव
 - पास्तेरीकरण एवं निर्जर्मांकरण
- (b) सूक्ष्मजीवीय वृद्धि को नियंत्रित करने में जैविक संरचना और संदमनी पदार्थों की भूमिका लिखिए। 5
5. (a) खाद्य योज्य क्या हैं? खाद्य उद्योग में इनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। 6
- (b) पास्तेरीकरण को परिभाषित कीजिए। एल टी एल टी और एच टी एस टी पास्तेरीकरण के लिए समय-तापमान संबंधी तालमेल का वर्णन कीजिए। 4
6. (a) बोटूलिज्म क्या है? 2
- (b) पीने के पानी में संदूषकों के स्रोत कौन से हैं? 3
- (c) खाद्य जनित रोगों को उचित उदाहरणों की सहयाता से परिभाषित और वर्गीकृत कीजिए। 5

7. (a) प्रसंस्कृत दलहनों और अनाज उत्पादों की विकृति का 5
वर्णन कीजिए।
- (b) खाद्य विकृति उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को 5
प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए।
8. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए : (कोई पाँच) $5 \times 2 = 10$
- (a) जल क्रिया
 - (b) आम्लीकारक
 - (c) खाद्य संक्रमण
 - (d) ऊष्मीय मृत्यु समय
 - (e) माइक्रोटॉक्सिन
 - (f) यू एच टी प्रसंस्करण
-